



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

म० 130]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 1979/चैत्र 6, 1901

No 130]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 1979/CHAITRA 6, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिलेखना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1979

का०आ० 155 (अ) —राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

आदेश

राष्ट्रपति ने, संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन गई, 1968 में निर्वाचन आयोग की उसकी राय जानने के लिये यह प्रश्न निर्देशित किया था कि क्या श्री एन० जी० रंगा, जो 1967 में हुए मध्यावधि-निर्वाचन में श्रीकाकुलम निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102 (1)(इ) के अधीन निरहित हो गए थे।

और इस विषय पर निर्वाचन आयोग की परामर्श संबंधी अधिकारिता का प्रश्न, एक रिट-प्राप्तिका के जुरिण आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष और तदनन्तर उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ पेश हुआ;

और उच्चतम न्यायालय ने 17 अगस्त, 1978 के अपने निर्णय में, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग को निर्देशित निर्णय संबंधी प्रश्नों के बारे में आयोग की परामर्श संबंधी अधिकारिता को पृष्ठ किया है;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय (उपाबन्ध) दी है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिस लोक सभा के श्री एन० जी० रंगा सदस्य थे, वह विनम्बर, 1970 में विघटित कर दी गई थी और

नई लोक सभा के गठन के लिये तत्पश्चात् चमन वर्ष 1971 में और 1977 में दो साधारण निर्वाचन हो चुके हैं, अतः राष्ट्रपति का निर्देश व्यर्थ और निष्फल हो गया है;

अतः अब मैं, मोलम सजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार यह विनिश्चय करता हूँ कि इस प्रश्न पर, कि क्या श्री एन० जी० रंगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102(1) (इ) के अधीन निरहित हो गये हैं या नहीं, विनिश्चय करना अब आवश्यक नहीं रह गया है।

राष्ट्रपति भवन,  
नई दिल्ली, 19 मार्च, 1979

मोलम सजीव रेड्डी,  
भारत का राष्ट्रपति

उपाबन्ध

भारत का निर्वाचन आयोग

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष।

संदर्भ : भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्देश—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के साथ पठित अनुच्छेद 102(1)(इ) के अधीन श्री एन० जी० रंगा की निर्णयता।

राय

यह निर्देश भारत के संविधान (जैसा वह 1969 में था) के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय जानने के लिये किया गया था कि क्या 1967 में हुए मध्यावधि-चुनाव में श्रीकाकुलम निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य के रूप में

निर्वाचित श्री एन० जी० रंगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) में उल्लिखित निरर्हताओं के अधीन हो गये हैं ।

राष्ट्रपति के समक्ष यह प्रश्न आन्ध्र-प्रदेश राज्य के एक मतदाता, श्री नरसिंहम् ने अप्रैल, 1968 में उठाया था । इस निर्देश के प्राप्त होने पर श्रीर श्री नरसिंहम् की याचिका की जांच करके, आयोग ने दोनों पक्षकारों को अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये आम सूचनाएं जारी की । श्री एन० जी० रंगा ने आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट-याचिका दायर करके, उक्त सूचना को इस आधार पर चुनौती दी कि निर्वाचन आयोग को, जो उसके निर्वाचन-व्यय का लेखा पहले ही स्वीकार कर चुका था, यह अधिकारिता प्राप्त नहीं थी कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हता के मामले की जांच करे और ऐसे विषय पर जिसका विनिश्चय आयोग पहले कर चुका है, पुनः विचार करे ।

उच्च न्यायालय ने रिट याचिका मंजूर कर ली, आयोग द्वारा श्री एन० जी० रंगा को जारी की गई सूचना अभिखण्डित कर दी और निर्वाचन आयोग के विरुद्ध 3-1-1969 को एक प्रतिपेक्षात्मक रिट जारी कर दिया । इस प्रकार उच्च न्यायालय के आदेश से निर्वाचन आयोग को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित मामले पर कार्यवाई करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया था ।

वृत्ति मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 और 192 के अधीन निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे अन्तर्बलित थे, अतः निर्वाचन आयोग ने मार्च, 1969 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय ने 9½ वर्ष के बाद, 17-8-1978 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा निर्वाचन आयोग की अपील मंजूर कर ली और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मारीय 3-1-1969 के निर्णय को अभिखण्डित कर दिया है । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि संसद् या राज्य विधान मण्डल के किसी आसीन सदस्य की निरर्हता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष प्रश्न उठाया जाता है तो वे मामले को आयोग को राय जानने के लिये निर्देशित करने के लिये और 1969 में यथा विद्यमान उपबन्ध के अधीन ऐसी राय के अनुसार कृत्य करने के लिये संविधान द्वारा बाध्य थे । और उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन किये गये निर्देश के अनुसरण में आयोग की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने को अधिकारिता नहीं थी । उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रपति के समक्ष उठाया गया कोई प्रश्न निस्सार, या काल्पनिक है या नहीं, यह बताना निर्वाचन आयोग का काम है और न्यायालयों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने या ऐसे प्रश्नों पर विनिश्चय करने की अधिकारिता नहीं है ।

श्री एन० जी० रंगा चौथी लोक सभा के आसीन सदस्य थे, जो दिसम्बर, 1970 में विघटित हो गई थी । तब से लोक सभा के गठन के लिये दो साधारण निर्वाचन, एक 1971 में और दूसरी 1977 में, हो चुके हैं । इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति द्वारा किया गया निर्देश व्यर्थ और निष्फल हो गया है ।

उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन अपनी राय देता है कि 1968 में राष्ट्रपति द्वारा किये गये निर्देश में उठाए गये इस प्रश्न पर अब अवधारण करना आवश्यक नहीं है कि श्री एन० जी० रंगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन निरर्हित हो गये हैं या नहीं ।

नई दिल्ली,

30 दिसम्बर, 1978

एम०एस० शंकर

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

[सं० फा० 7(7)/79-वि०-II]

आर० बी० एस० पेंरी शास्त्री, सचिव

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1979

**S.O. 155(E).**—The following Order made by the President is published for general information.

### ORDER

Whereas the question whether Shri N. G. Ranga, a member elected to the House of the People, at a bye-election from Srikakulam constituency held in 1967, had become subject to the disqualification under article 102(1)(e) of the Constitution read with section 10A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), had been referred by the President to the Election Commission for opinion in May, 1968, under article 103 of the Constitution ;

And whereas the question of the Election Commission's advisory jurisdiction in the matter came up for consideration in a writ petition before the Andhra Pradesh High Court and later before the Supreme Court ;

And whereas the Supreme Court by its judgment dated the 17th August, 1978, has upheld the advisory jurisdiction of the Election Commission in regard to questions of disqualification referred to it by the President ;

And whereas the Election Commission has given its opinion (Annexure) that having regard to the facts that the House of the People of which Shri N. G. Ranga was a member was dissolved in December, 1970, and that two general elections have been held subsequently to constitute a new House of the People, in 1971 and 1977, respectively, the reference from the President has become otiose and infructuous ;

Now, therefore, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, in exercise of the powers conferred on me under article 103 of the Constitution do hereby decide, in accordance with the opinion of the Election Commission, that the question as to whether Shri N. G. Ranga had become subject to disqualification under article 102(1)(e) of the Constitution read with section 10A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), no longer remains for determination.

Rashtrapati Bhavan,

NEELAM SANJIVA REDDY,

New Delhi, the 19th March, 1979

President of India

### ANNEXURE

#### ELECTION COMMISSION OF INDIA

##### Before the Chief Election Commissioner of India

In re :—Reference from the President under Article 103(2) of the Constitution of India—Disqualification of Shri N. G. Ranga under article 102(1)(e) read with section 10A of the Representation of the People Act, 1951.

### OPINION

This is a reference by the President of India under article 103 of the Constitution of India (as it stood in 1969) for an opinion of the Election Commission on the question whether Shri N. G. Ranga a member elected to the House of the People at a bye-election from Srikakulam constituency held in 1967 has become subject to the disqualification mentioned in article 102(1)(e) of the Constitution read with Section 10A of the Representation of the People Act, 1951.

This question was raised in April 1968 before the President by one Sri Narasimham, a voter in the State of Andhra Pradesh.

On receipt of this reference and the examination of the petition of Sri Narasimham, the Commission issued the usual notices to both the parties to file their written representations. Sri N. G. Ranga challenged this notice by a writ petition filed in the High Court of Andhra Pradesh on the ground that the Election Commission, having already accepted his account of election expenses, has no jurisdiction to enquire into the matter of disqualification under Section 10A of the Representation of the People Act, thereby re-opening a matter in

which a decision has already been taken by the Commission.

The High Court accepted the writ petition, quashed the notice issued to Sri N. G. Ranga by the Commission and issued a writ of prohibition on 3-1-1969 against the Election Commission. The Election Commission was thus prevented by an order of the High Court from proceeding with the reference case from the President.

As the matter involved important Constitutional issues in regard to the powers of the Election Commission under articles 103 and 192 of the Constitution of India, an appeal was filed by the Commission before the Supreme Court in March, 1969. After a lapse of 9½ years, the Supreme Court, by its judgment and order dated 17-8-1978, has allowed the appeal of the Election Commission and has quashed the order dated 3-1-1969 of the Andhra Pradesh High Court. The Supreme Court has held that when a question has been raised before the President or the Governor about the disqualification of a sitting member of Parliament or State Legislative, he is bound by the Constitution to refer the question to the Commission for its opinion and act in accordance with that opinion under the provisions as it stood in 1969 and that the High Court has no jurisdiction to interfere with the proceedings of the Commission in pursuance of the reference under article 103 of the Constitution. The Supreme Court has further held that it is for the Election Commission to say whether the question raised before the President is 'frivolous' or

'fantastic' and the courts have no jurisdiction to interfere in such matters or decide such questions.

Sri N. G. Ranga was the sitting member of the fourth Lok Sabha, which was dissolved in December, 1970. Since then two general elections have been held to constitute a new House of the People, one in 1971 and another in 1977. In view of this, the reference from the President became otiose and infructuous.

Having regard to the above circumstances, the Commission hereby tenders the opinion under article 103 of the Constitution that the question raised in the reference made by the President in 1968 as to whether Sri N. G. Ranga has become subject to the disqualification mentioned in article 102 (1)(e) read with Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 no longer remains for determination by the President.

New Delhi,

S. L. SHAKDHER,

30th December, 1978 Chief Election Commissioner of India

[No. F. 7(7)/79-Leg. II]

R. V. S. PERI SASTRI Secy.

